

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 252]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 जून 2015—आषाढ़ 3, शक 1937

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 जून 2015 (आषाढ़ 3, 1937)

विधान सभा के सदस्य की निधन की सूचना

क्र. 13232-वि.स.-विधान-2015.—मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 171-देवास से निर्वाचित सदस्य, श्री तुकोजीराव पवार का दिनांक 19 जून 2015 को निधन हो जाने के फलस्वरूप विधान सभा में उक्त एक स्थान रिक्त हो गया है.

भगवानदेव ईसरानी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.